



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 17—मई 23, 2008 (वैशाख 27, 1930)

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17—MAY 23, 2008 (VAISAKHA 27, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 2008

सं. 221, दिनांक 17 अप्रैल 2008—अल्पसंख्यक मंत्रालय के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से स्थानांतरण होने पर राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा : 71) की अधिकारी श्रीमती दीपा जैन सिंह को, 20 मार्च 2008 (पूर्वाह्न) से रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित सहायकों को 07 मार्च, 2008 (पूर्वाह्न) से 30 जून, 2008 तक की अवधि अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं:-

1. श्री जगदीश प्रसाद
2. श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा
3. श्रीमती रविन्द्र कौर

2. उपर्युक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- (i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या अनुभाग

अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और

- (ii) केन्द्रीय सचिव सेवा नियमावली में विहित शर्तों के सामान्य माध्यमों द्वारा नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

के मुरली
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 222, दिनांक 17 अप्रैल 2008—अनुदेश 14/79 द्वारा यथाशोधित धससेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेवा

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर

कप्तान आशुतोष कंसल (एमएस-14713डब्ल्यू), आयोग की तिथि 10 दिसम्बर 2003 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 10 जून 2000 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति/स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (पैथोलोजी) के लिए (36+6) 42 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान नवदीप सिंह (एमएस-15068वाई), आयोग की तिथि 17 मई 2005 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17 नवम्बर 2004 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति योग्यता के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान शिल्पी अरोड़ा (एमएस-15141एम), आयोग की तिथि 16 दिसम्बर 2005 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16 दिसम्बर 2002 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डीएनबी (नेत्र विज्ञान) के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान नागर सज्जराव शिवाजी (एमएस-15202वाई), आयोग की तिथि 20 जनवरी 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 20 जनवरी 2004 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डिप्लोमा इन इएनटी के लिए 24 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान पी. प्रभाकर राजाधर्मी (एमएस-15306ए), आयोग की तिथि 21 अप्रैल 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 2002 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति और स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (ओर्थोपेडिक) के लिए (36+6) 42 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान प्रभात पीयूष (एमएस-15333के), आयोग की तिथि 22 सितम्बर 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 मार्च 2006 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान चेतन संगोत्रा (एमएस-15335पी), आयोग की तिथि 22 सितम्बर 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 मार्च 2006 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान कंदार प्रदीप महादेव (एमएस-15385ए), आयोग की तिथि 22 सितम्बर 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 सितम्बर 2004 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डिप्लोमा बहिरीकरणशास्त्र के लिए 24 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान पंकज कुमार शर्मा (एमएस-15416पी), आयोग की तिथि 11 अक्टूबर 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 11 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डिप्लोमा इन एनैस्थीसियोलोजी के लिए 24 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान पंकज पंडारी (एमएस-15420एक्स), आयोग की तिथि 06 अक्टूबर 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 06 अप्रैल 2006 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान प्रीती मनहास (एमएस-15431के), आयोग की तिथि 22 जनवरी 2007 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 जुलाई 2006 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान गगन प्रीत सिंह (एमएस-15434एक्स), आयोग की तिथि 22 जनवरी 2007 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 जुलाई 2006 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान रंजीत अंगोमचतु (एमएस-15438एन), आयोग की तिथि 22 जनवरी 2007 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 जुलाई 2006 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान भास्कर ज्योति दास (एमएस-15450पी), आयोग की तिथि 22 जनवरी 2007 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 जुलाई 2006 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान शिवानी (एमएस-15451एक्स), आयोग की तिथि 22 जनवरी 2007 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 जनवरी 2004 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल स्नातकोत्तर योग्यता डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

कप्तान के पद पर (परखपर)

कप्तान अमन दीप राज (एमएस-15538एम), एएमसी, 17 जुलाई 2007

कप्तान किरन मरिबा शेट्टी (एमएस-15576पी), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान सीमा सुभाष रेवणकर (एमएस-15577एक्स), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान निखादे रश्मिकिरन दामोदरराव (एमएस-15579एन), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान अमित टक (एमएस-15590एफ), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान महाजन राहुल अशोक (एमएस-15593पी), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान बांदेकर कंदार गुरुनाथ (एमएस-15597एल), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान मोनिका अग्रवाल (एमएस-15599डब्ल्यू), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान विक्रम एम (एमएस-15608एम), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान दांडेकर प्राजक्ता प्रफुल्ला (एमएस-15620एन), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान सोनू सिंह (एमएस-15639एम), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान कृष्णा कुमार के (एमएस-15638के), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान वीणा खारायत (एमएस-15640एफ), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान अमित नरेश (एमएस-15571डब्ल्यू), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान किरण नाडिगेर (एमएस-15575एम), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान मनीष कुमार गर्ग (एमएस-15591के), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान मोनेन्द्र सिंह आर्य (एमएस-15595ए), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान मधुकर कुमार (एमएस-15607के), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान अनस एन (एमएस-15613एक्स), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान ओपजिन्दर सिंह दीपक (एमएस-15614ए), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान त्रिप्तपाल कौर (एमएस-15616एल), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान नीतू लाल (एमएस-15618डब्ल्यू), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान दीप्ति अग्रवाल (एमएस-15624के), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान हिम्मत सिंह रावैर (एमएस-15627एक्स), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान रेखा शर्मा (एमएस-15628ए), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान शर्मा प्रदीप ब्रिज किशोर (एमएस-15644एक्स), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान हनीफ मखबूल तंत्री (एमएस-15436एच), एएमसी, 22 जनवरी 2007

कप्तान श्रुति (एमएस-15557के), एएमसी, 05 जून 2007

कप्तान सिंह सुधीर अखिलेश कुमार (एमएस-15600ए), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान कामग्रेडकर योगेश नंदकुमार (एमएस-15619वाई), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

कप्तान राजन गुप्ता (एमएस-15635डब्ल्यू), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

फ्ला. लेफ्टि. के पद पर

फ्ला. लेफ्टि. तिरुमूर्ति एन (एमएस-15053डब्ल्यू) (एफ-27685), आयोग की तिथि 12 अप्रैल 2005 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति योग्यता के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. दिनांक 17 जून 2006 को, जहाँ तक इस अफसर से संबंधित है, रद्द किया जाता है।

फ्ला. लेफ्टि. पिजस घोराय (एमएस-15178एन) (एयर फोर्स-28393), आयोग की तिथि 16 दिसम्बर 2005 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16 जून 2005 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति योग्यता के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. दिनांक 11 नवम्बर 2006 को, जहाँ तक इस अफसर से संबंधित है, रद्द किया जाता है।

फ्ला. लेफ्टि. अजय प्रताप सिंह (एमएस-15237पी) (एफ-28403), आयोग की तिथि 16 दिसम्बर 2005 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16 जून 2005 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति योग्यता के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्ला. लेफ्टि. दीपक कुमार बोरो (एमएस-15173पी) (एफ-28409), आयोग की तिथि 16 दिसम्बर 2005 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16 जून 2002 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति योग्यता डाक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए (36+6) 42 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्ला. लेफ्टि. सफिया अहमद (एमएस-15552एल) (एफ-28904आर), आयोग की तिथि 17 अप्रैल 2007 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17 अप्रैल 2004 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्ला. लेफ्टि. अश्विनी कुमार (एमएस-15483ए) (एफ-28878), आयोग की तिथि 22 जनवरी 2007 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 जनवरी 2005 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डीएलओ (ओटो रेडिओजोलोजी) के लिए 24 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्ला. लेफ्टि. अरुण कुमार (एमएस-15171के) (एफ-28408), आयोग की तिथि 16 दिसम्बर 2005 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16 दिसम्बर 2002 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर ऑफ सर्जरी (आर्थोपेडिक्स) के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्ला. लेफ्टि. उमेश गुप्ता (एमएस-14261वाई) (ए एफ-26471एच), आयोग की तिथि 07 जून 2000 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. दिनांक 25 दिसम्बर 2004 को, जहां तक इस अफसर से संबंधित है, रद्द किया जाता है।

फ्ला. लेफ्टि. ताक्यो तेयी (एमएस-15054वाई) (ए एफ-28375), आयोग की तिथि 12 अप्रैल 2005 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

फ्ला. लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

फ्ला. लेफ्टि. राजेश निवाल् (एमएस-15570एन), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

फ्ला. लेफ्टि. इन्दु बाला (एमएस-15592एम), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

फ्ला. लेफ्टि. गहुल रामचंद्र मरखेड (एमएस-15637एफ), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

फ्ला. लेफ्टि. अरविन्द कुमार गौतम (एमएस-15603एन), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

सर्जन ले. के पद पर

सर्जन लेफ्टि. अमित शर्मा (एमएस-15467एच) (75936एफ), आयोग की तिथि 22 जनवरी 2007 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 जुलाई 2006 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

सर्जन लेफ्टि. अश्वेक कुमार (एमएस-15246डब्ल्यू) (75922जैड), आयोग की तिथि 21 अप्रैल 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2003 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए 36 महीना पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टि. पंजुनाथ वि मारिगेरी (एमएस-15584एन) (22978वाई), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

सर्जन लेफ्टि. इम्रान खान (एमएस-15586वाई) (22980ए), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

सर्जन लेफ्टि. वासवप्रभु मानासुर (एमएस-15589एम) (22981बी), एएमसी, 06 सितम्बर 2007

सर्जन लेफ्टि. मधु कं जो (एमएस-15556एफ), एएमसी, 05 जून 2007

सर्जन लेफ्टि. साने मंदार रामचन्द्र (एमएस-15469एन) (75928एन), एएमसी, 22 सितम्बर 2006

सर्जन लेफ्टि. कुसुम सता (एमएस-15560के), एएमसी, 17 जुलाई 2007

राष्ट्रपति, महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

लेफ्टि. रजत गोविन्द (एमएस-15506डब्ल्यू), एएमसी, 26 मार्च 2007

लेफ्टि. निहारिका बिष्ट (एमएस-15508एफ), एएमसी, 26 मार्च 2007

लेफ्टि. नेहा यादू (एमएस-15512के), एएमसी, 26 मार्च 2007

लेफ्टि. कुणाल विक्रम सिंह (एमएस-15517एच), एएमसी, 26 मार्च 2007

लेफ्टि. वैभव श्रीवास्तव (एमएस-15565एच), एएमसी, 31 अगस्त 2007

लेफ्टि. कुलप्रीत कौर (एमएस-15567एन), एएमसी, 31 अगस्त 2007

लेफ्टि. सौरभ सिंह (एमएस-15518एल), एएमसी, 26 मार्च 2007

लेफ्टि. प्रवीण कुमार यादव (एमएस-15529एक्स), एएमसी, 26 मार्च 2007

सर्जन सब लेफ्टि. के पद पर (परख पर)

सर्जन सब लेफ्टि. अहमद मुस्तफा मतीन (एमएस-15406एल), एएमसी, 12 अक्टूबर 2006

सर्जन सब लेफ्टि. प्रियदर्शी पत्रा (एमएस-15407एन), एएमसी, 12 अक्टूबर 2006

फ्लाईट ऑफिसर के पद पर (परख पर)

फ्ला. ऑफिसर अखिलेश्वर सिंह (एमएस-15499एल), एएमसी, 26 मार्च 2007

राष्ट्रपति सहर्ष सेना अनुदेश 10/2001 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी) स्थायी कमीशन अधिकारियों को 20 मार्च 2007 से नियुक्त करते हैं:--

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर 20 मार्च 2007 से प्रभावी (परख पर)

पद, नाम, पुराना व्यक्तिगत सं., नया व्यक्तिगत संख्या और कमीशन की तिथि

हवलदार एम ओमयोरुभागन पिल्ले (13974080एन) (एनटीआर-16761पी), 20 मार्च 2007

जी रवीन्द्रनाथ

विधे.

उप डीजीएफएमएस (पर्स)

सं. 223, दिनांक 21 अप्रैल 2008--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी, श्री राजेश कुकरेती के 02 जनवरी 2008 को समाप्त हो रहे कार्यकाल को 02 अप्रैल 2008 तक बढ़ाते हैं।

एस के रस्तोगी
अवर सचिव

(सेना शाखा)

सं. 224, दिनांक 21 अप्रैल 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को परख अवधि पूरा होने पर पबका करते हैं:--

नियमित सेवा

अस्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

पद, नाम, व्यक्तिगत संख्या और कमीशन की तिथि

लेफ्टि. रातिशन नाथर एन (एनटीएस-17531एन), 07 अप्रैल 2006

लेफ्टि. अवध जयदेव खाण्डे राव (एनटीएस-17533आई), 07 अप्रैल 2006

लेफ्टि. हर्ष वर्धन (एनटीएस-17535के), 07 अप्रैल 2006

लेफ्टि. पौजी विनायगन (एनटीएस-17540पी), 07 अप्रैल 2006

जी रवीन्द्रनाथ

विप्रे.

उप डीजीएफएमएस (पर्स)

(सेना शाखा)

सं. 225, दिनांक 22 अप्रैल 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:--

* नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

कैप्टन से मेजर के पद पर

कैप्टन वनीला एल के (एमएस-14270ए), 21 जनवरी 2006

कैप्टन विकास सिंघल (एमएस-15309एन), 02 फरवरी 2007

कैप्टन सामोनाथन पी (एमएस-14466एन), 06 फरवरी 2007

कैप्टन (श्रीमती) प्रतिभा शर्मा (एमएस-14546एल), 13 फरवरी 2007

कैप्टन थागे सतीश कुमार राव साहिब (एमएस-15345आई), 22 मार्च 2007

कैप्टन निखिल एस भारद्वाज (एमएस-14616आई), 29 मार्च 2007

कैप्टन यतिन कुमार वर्मा (एमएस-15305एक्स), 21 अप्रैल 2007

कैप्टन सुनील पन्नाल (एमएस-14667एम), 19 मई 2007

कैप्टन मंजू चावला (एमएस-14763एफ), 17 अगस्त 2007

कैप्टन सुनील भारद्वाज (एमएस-14792डब्ल्यू), 19 सितम्बर 2007

कैप्टन परमिन्दर कौर (एमएस-14793आई), 29 सितम्बर 2007

कैप्टन जी प्रेमनाथ (एमएस-14794एफ), 29 सितम्बर 2007

कैप्टन संतोष कुमार (एमएस-14810एन), 29 सितम्बर 2007

कैप्टन गौरव भोगा (एमएस-14834एक्स), 06 नवम्बर 2007

कैप्टन (कु.) प्रियंका अरोड़ा (एमएस-14690ए), 09 दिसम्बर 2007

कैप्टन स्वेता सिन्हा (एमएस-14272एल), 21 जनवरी 2006

कैप्टन रविन्द्र चौहान (एमएस-15307एच), 21 अक्टूबर 2006

कैप्टन विजेंद्र संगवान (एमएस-14642ए), 04 मई 2007

कैप्टन पालनितकर सचिन सुधाकर (एमएस-14640पी), 24 मई 2007

कैप्टन कौशलेन्द्र कुमार (एमएस-14750के), 17 अगस्त 2007

कैप्टन विपिन कुमार राय (एमएस-14765एम), 17 अगस्त 2007

कैप्टन प्रमोद गुलेरिया (एमएस-14818ए), 17 अगस्त 2007

कैप्टन हर्ष विवेक सिंह (एमएस-14705एक्स), 21 नवम्बर 2007

कैप्टन पंकज कुमार सिंह (एमएस-14674एच), 28 नवम्बर 2007

कैप्टन गिरिश रामाचन्दन नायर (एमएस-14676एन), 01 दिसम्बर 2007

कैप्टन राजीव शर्मा (एमएस-14745आई), 01 दिसम्बर 2007

कैप्टन वरुण (एमएस-14661आई), 04 दिसम्बर 2007

कैप्टन अनिल कुमार (एमएस-14682एफ), 06 दिसम्बर 2007

कैप्टन परमेश्वर कुमार (एमएस-14686एक्स), 08 दिसम्बर 2007

कैप्टन अनुपमा डोड (एमएस-14687ए), 08 दिसम्बर 2007

कैप्टन मीना मारुति ओहल (एमएस-14694डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 2007

कैप्टन नरेन्द्र राय (एमएस-14698एम), 09 दिसम्बर 2007

फ्ला. लेफ्टि से स्ववा लीडर के पद पर

फ्ला. लेफ्टि शिव नारायण पांडे (एमएस-15175ए) (एफ-28405बी), 16 दिसम्बर 2006

फ्ला. लेफ्टि अमोल विनायकराव चिटनिस (एमएस-14660एच) (एफ-26923एफ), 20 जनवरी 2007

फ्ला. लेफ्टि राहुल राय (एमएस-14664आई) (एफ-26933के),
07 अप्रैल 2007

फ्ला. लेफ्टि मोहम्मद कबेसर जावेद (एमएस-14828के)
(एफ-27649एफ), 29 सितम्बर 2007

फ्ला. लेफ्टि सुब्रामणिया यू (एमएस-14647आई)
(एफ-26934एच), 10 अक्टूबर 2007

फ्ला. लेफ्टि अंजली लालचानी (एमएस-14836एच)
(एफ-27648ए), 18 नवम्बर 2007

फ्ला. लेफ्टि जेम्स वरगोस (एमएस-15172एम) (एफ-28411एन),
16 दिसम्बर 2006

फ्ला. लेफ्टि अमृत लाल राजन (एमएस-15180एल)
(एफ-28407के), 16 दिसम्बर 2006

फ्ला. लेफ्टि संजय कुमार श्रीवास्तव (एमएस-15183आई)
(एफ-26406जी), 16 दिसम्बर 2006

फ्ला. लेफ्टि धारित्री हादीबरुआ (एमएस-14665एफ)
(एफ-26934एन), 09 अप्रैल 2007

फ्ला. लेफ्टि प्रशान्त दत्ता (एमएस-14631एन) (एफ-26936ए),
24 अप्रैल 2007

फ्ला. लेफ्टि गुलशन कुमार गर्ग (एमएस-14645एन)
(एफ-26921जी), 27 दिसम्बर 2003

फ्ला. लेफ्टि सुन्दर सिंह (एमएस-14632डब्ल्यू) (एमएफ-26943आर),
30 दिसम्बर 2003

फ्ला. लेफ्टि दीपक कुमार (एमएस-14710एच) (एमएफ-27642टी),
08 दिसम्बर 2004

फ्ला. लेफ्टि चातेन्द्र कुमार चौधरी (एमएस-14948एच)
(एफ-27664एस), 05 अप्रैल 2005

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के पद पर

फ्लाईंग आफिसर हरमोत सिंह गुरम (एमएस-14918एल)
(एफ-27678एस), 27 दिसम्बर 2005

फ्लाईंग आफिसर शैलेन्द्र सिंह (एमएस-15090के) (एफ-28385टी),
17 सितम्बर 2006

फ्लाईंग आफिसर राहुल (एमएस-14858एफ) (एफ-27661जी),
09 अगस्त 2005

फ्लाईंग आफिसर अमित कुमार (एमएस-14869एन)
(एफ-27662के), 09 अगस्त 2005

फ्लाईंग आफिसर मनोज गोयल (एमएस-14870एच)
(एफ-27659के), 10 अगस्त 2005

फ्लाईंग आफिसर अजय कुमार (एमएस-14863एम)
(एफ-27663एन), 11 अगस्त 2005

फ्लाईंग आफिसर गौरव अतरी (एमएस-14928पी)
(एफ-27681एस), 27 दिसम्बर 2005

फ्लाईंग आफिसर विवेक रंजन सिंह (एमएस-15087के)
(एफ-28384आर), 17 सितम्बर 2006

फ्लाईंग आफिसर विशो चौधरी (एमएस-15091एम)
(एफ-28386बी), 17 सितम्बर 2006

फ्लाईंग आफिसर असोम शर्मा (एमएस-15094ए) (एफ-28387जी),
17 सितम्बर 2006

जी रवीन्द्रनाथ

ब्रिगे.

उप डीजीएफएमएस (पर्स)

(सेना शाखा)

सं. 226, दिनांक 22 अप्रैल 2008-- राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारों
को सेवानिवृत्त होने और अपना रैंक बनाये रखने की अनुमति देते हैं:-

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्ति

लै. कर्नल एस के गढ़ी टोए (एम-1141), (रेलवे मेडिकल ऑफिसर),
31 दिसम्बर 2007

जय राज

अवर सचिव

(सेना शाखा)

(शुद्धि पत्र)

सं. 227, दिनांक 23 अप्रैल 2008-- यथासंशोधित थलसेना अनुदेश
75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

कप्तान के पद पर (परख पर)

एमएस 14439के चन्द्रशेखर टी की कमीशन तिथि जोकि 03 सितम्बर
2005 के राजपत्र में प्रकाशित किया है इसमें निम्नलिखित संशोधन किया
जाता है।

के लिए : 18 जनवरी 2002

पढ़े : 21 जनवरी 2002

जी रवीन्द्रनाथ

ब्रिगे.

उप डीजीएफएमएस (पर्स)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 17th May 2008

No. 221, dated 17th April 2008.—The President is pleased to appoint Smt. Deepa Jain Singh, IAS(HY : 71) on transfer from National Commission for Minorities, Ministry of Minority Affairs, as Secretary, Department of Ex-servicemen's Welfare in the Ministry of Defence w.e.f. 20.03.2007(FN).

The President is pleased to appoint the following Assistants borne on the CSS cadre of Ministry of Defence as Section Officer on ad hoc basis in the same Ministry in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 07.03.2008 (FN) for a period up to 30.06.2008 or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri Jagdish Prasad
2. Smt. Vijay Laxmi Sharma
3. Smt. Ravinder Kaur

2. The above appointments will be subject to the following conditions :—

(i) The ad hoc appointments shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS;

(ii) They will be reverted to the Assistants' Grade on availability of regular Section Officer through normal channels of recruitment as prescribed in the CSS Rules.

K. MURALI
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 222, dated 17th April 2008.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under A1 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt

Capt Ashutosh Kansal (MS-14713W), DOC, 10 Dec 2003*

With seniority for pay and promotion from 10-06-2000. This includes 42 months antedate seniority for [36 months for Doctor of Medicine (Pathology) and 06 months for hospital appointment], which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Navdeep Singh (MS-15068Y), DOC, 17 May 2005

With seniority for pay and promotion from 17-11-2004. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Shilpi Arora (MS-15141M), DOC, 16 Dec 2005

With seniority for pay and promotion from 16-12-2002 [this includes 36 months antedate seniority for DNB (Oto-Rhino-Laryngology) which will not count for gratuity].

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Nagare Sarjerao Shivaji (MS-15202Y), DOC, 20 Jan 2006

With seniority for pay and promotion from 20-01-2004. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in Laryngology and Otology, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt P Prabhakar Rajamani (MS-15306A), DOC, 21 Apr 2006

With seniority for pay and promotion from 21-10-2002 [this includes 36 months antedate seniority for DNB (Orthopaedics Surgery) and 06 months for hospital appointment which will not count for gratuity].

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Prabhat Peeyush (MS-15333K), DOC, 22 Sep 2006

With seniority for pay and promotion from 22-03-2006. This includes 06 months antedate seniority for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Chetan Pangotra (MS-15335P), DOC, 22 Sep 2006

With seniority for pay and promotion from 22-03-2006. This includes 06 months antedate seniority for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Kedar Pradeep Mahadeo (MS-15385A), DOC, 22 Sep 2006

With seniority for pay and promotion from 22-09-2004. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in Anaesthesiology, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Pankaj Kumar Sharma (MS-15416P), DOC, 11 Oct 2006

With seniority for pay and promotion from 11-10-2004. This includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in Anaesthesiology, which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Pankaj Bhandari (MS-15420X), DOC, 06 Oct 2006

With seniority for pay and promotion from 06-04-2006. This includes 06 months antedate seniority for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Prity Manhas (MS-15431K), DOC, 22 Jan 2007

With seniority for pay and promotion from 22-07-2006. This includes 06 months antedate seniority for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Gaganpreet Singh (MS-15434X), DOC, 22 Jan 2007

With seniority for pay and promotion from 22-07-2006. This includes 06 months antedate seniority for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Ranjeeta Angomchana (MS-15438N), DOC, 22 Jan 2007

With seniority for pay and promotion from 22-07-2006. This includes 06 months antedate seniority for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Bhaskar Jyoti Das (MS-15450P), DOC, 22 Jan 2007

With seniority for pay and promotion from 22-07-2006. This includes 06 months antedate seniority for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Shivani (MS-15451X), DOC, 22 Jan 2007

With seniority for pay and promotion from 22-01-2004 (this includes 36 months antedate seniority for Doctor of Medicine, which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

To be Capt on probation

Capt Aman Deep Raj (MS-15558M), AMC, 17 Jul 2007

Capt Kiran Maribashetti (MS-15576P), AMC, 06 Sep 2007

Capt Seema Subhash Revankar (MS-15577X), AMC, 06 Sep 2007

Capt Nikhade Ravikiran Damodharrao (MS-15579H), AMC, 06 Sep 2007

Capt Amit Tak (MS-15590F), AMC, 06 Sep 2007

Capt Mahajan Rahul Ashok (MS-15593P), AMC, 06 Sep 2007

Capt Bandekar Kedar Gurnath (MS-15597L), AMC, 06 Sep 2007

Capt Monika Aggarwal (MS-15599W), AMC, 06 Sep 2007

Capt Vikram M (MS-15608M), AMC, 06 Sep 2007

Capt Dandekar Prajakta Prafulla (MS-15620N), AMC, 06 Sep 2007

Capt Sonu Singh (MS-15639M), AMC, 06 Sep 2007

Capt Krishna Kumar K (MS-15638K), AMC, 06 Sep 2007

Capt Veena Kharayat (MS-15640F), AMC, 06 Sep 2007

Capt Amit Naresh (MS-15571W), AMC, 06 Sep 2007

Capt Kiran Nadiger (MS-15575M), AMC, 06 Sep 2007

Capt Manish Kumar Garg (MS-15591K), AMC, 06 Sep 2007

Capt Monendra Singh Arya (MS-15595A), AMC, 06 Sep 2007

Capt Madhukar Kumar (MS-15607K), AMC, 06 Sep 2007

Capt Anas N (MS-15613X), AMC, 06 Sep 2007

Capt Opjinder Singh Deepak (MS-15614A), AMC, 06 Sep 2007

Capt Triptpal Kaur (MS-15616L), AMC, 06 Sep 2007

Capt Neetu Lal (MS-15618W), AMC, 06 Sep 2007

Capt Deeptika Agarwal (MS-15624K), AMC, 06 Sep 2007

Capt Himmat Singh Rathore (MS-15627X), AMC, 06 Sep 2007

Capt Rekha Sharma (MS-15628A), AMC, 06 Sep 2007

Capt Sharma Pradeep Brijkishor (MS-15644X), AMC, 06 Sep 2007

Capt Hanif Maqbool Tantry (MS-15436H), AMC, 22 Jan 2007

Capt Shruti (MS-15557K), AMC, 05 Jun 2007

Capt Singh Sudheer Akhilesh Kumar (MS-15600A), AMC, 06 Sep 2007

Capt Kamkhedkar Yogesh Nandkumar (MS-15619Y), AMC, 06 Sep 2007

Capt Rajan Gupta (MS-15635W), AMC, 06 Sep 2007

To be Flt Lt

Flt Lt Thirumoorthi N (MS-15053W) (AF-27685), DOC, 12 Apr 2005

With Seniority for pay and promotion from 12-10-2004. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published on 17-06-2006 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Flt Lt Pijus Ghurai (MS-15178N) (AF-28393), DOC, 16 Dec 2005

With Seniority for pay and promotion from 16-06-2005. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published on 11-11-2006 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Flt Lt Ajay Pratap Singh (MS-15237P) (AF-28403), DOC, 16 Dec 2005

With Seniority for pay and promotion from 16-06-2005. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

Flt Lt Dipak Kumar Boro (MS-15173P) (AF-28409), DOC, 16 Dec 2005

With Seniority for pay and promotion from 16-06-2002 [this includes 36 months antedate for Doctor of Medicine (Medicine) and 06 months for hospital appointment which will not count for gratuity].

Flt Lt Safia Ahmed (MS-15552L) (AF-28904), DOC, 17 Apr 2006

With Seniority for pay and promotion from 17-04-2004 (this includes 36 months antedate for PG Degree, Doctor of Medicine which will not count for gratuity).

Flt Lt Ashwini Kumar (MS-15483A) (AF-28878), DOC, 22 Jan 2007

With Seniority for pay and promotion from 22-01-2005 (this includes 24 months antedate seniority for PG Diploma in Oto-Rhino-Laryngology, which will not count for gratuity).

Flt Lt Arun Kumar (MS-15171K) (AF-28408), DOC, 16 Dec 2005

With Seniority for pay and promotion from 16-12-2002 [this includes 36 months antedate for PG Degree, Master of Surgery (Orthopaedics) which will not count for gratuity].

Flt Lt Umesh Gupta (MS-14261Y) (AF-26471H), DOC, 07 Jun 2001

With Seniority for pay and promotion from 07-12-2000 (this includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity).

(Ministry of Defence notification published on 25-12-2004 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Flt Lt Takio Teyi (MS-15054Y) (AF-28375), DOC, 12 Apr 2005

With Seniority for pay and promotion from 12-10-2004. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

To be Flt Lt on probation

Flt Lt Rajesh Nirwal (MS-15570N), AMC, 06 Sep 2007

Flt Lt Indu Bala (MS-15592M), AMC, 06 Sep 2007

Flt Lt Rahul Ramachandra Merkhed (MS-15637F), AMC, 06 Sep 2007

Flt Lt Arvind Kumar Gautam (MS-15603N), AMC, 06 Sep 2007

To be Surg Lt

Surg Lt Amit Sharma (MS-15467H) (75936F), DOC, 22 Jan 2007

With Seniority for pay and promotion from 22-07-2006. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

Surg Lt Avishek Kumar (MS-15246W) (75922Z), DOC, 21 Apr 2006

With Seniority for pay and promotion from 21-04-2003 [this includes 36 months antedate for PG Degree Doctor of Medicine (Forensic Medicine) which will not count for gratuity].

To be Surg Lt on probation

Surg Lt Manjunath V Marigeri (MS-15584N) (22978Y), AMC, 06 Sep 2007

Surg Lt Imran Khan (MS-15586Y) (22980A), AMC, 06 Sep 2007

Surg Lt Basavaprabhu Manasur (MS-15589M) (22981B), AMC, 06 Sep 2007

Surg Lt Madhu K G (MS-15556F) (75956), AMC, 05 Jun 2007

Surg Lt Sane Mandar Ramchandra (MS-15469N) (75928N), AMC, 22 Sep 2006

Surg Lt Kusum Lata (MS-15560K), AMC, 17 Jul 2007

The President is pleased to make the following appointments for a period of 7 years under AI 75/78 as amended:

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt on probation

Lt Rajath Govind (MS-15506W), AMC, 26 Mar 2007

Lt Nihanka Bisht (MS-15508F), AMC, 26 Mar 2007

Lt Neha Yadu (MS-15512K), AMC, 26 Mar 2007

Lt Kunal Vikram Singh (MS-15517H), AMC, 26 Mar 2007

Lt Vaibhav Srivastava (MS-15565H), AMC, 31 Aug 2007

Lt Kulpreet Kaur (MS-15567N), AMC, 31 Aug 2007

Lt Saurabh Singh (MS-15518L), AMC, 26 Mar 2007

Lt Praveen Kumar Yadav (MS-15529X), AMC, 26 Mar 2007

To be Surg Sub Lt on probation

Surg Sub Lt Ahmad Mustafa Mateen (MS-15406L), AMC, 12 Oct 2006

Surg Sub Lt Prayadarshie Patra (MS-15407N), AMC, 12 Oct 2006

To be Fg Offr on probation

Fg Offr Akhileshwar Singh (MS-15499L), AMC, 26 Mar 2007

The President is pleased to make the following appointment under AI 10/2001 with effect from 20 Mar 2007, in AMC/PC (Non Tech) officers:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

As Lt wef 20 Mar 2007 (On probation)

Rank, Name, Old number and allotted personal number, and Date of Commission

Hav M Omayorubhagan Pillai (No. 13974080N now NTR-16761P), 20 Mar 2007

G. RAVINDRANATH
Brig
Dy DGAFMS (Pers)

No. 223, dated 21st April 2008.—The President is pleased to extend the tenure of Shri Rajesh Kukreti, CSS, Section Officer, Ministry of Defence, beyond 02-01-2008 and upto 02-04-2008.

S. K. RASTOGI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 224, dated 21st April 2008.—The President is pleased to confirm the undermentioned AMC/SSC (Non Tech) officers consequent on completion of the probationary period:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

Army Medical Corps (Non Tech)

Rank, Name, Pers No. and Date of Commission

Lt Ratheesan Nair N (NTS-17531N), 07 Apr 2006

Lt Avhad Jayadev Khande Rao (NTS-17533Y), 07 Apr 2006

Lt Harsverdhan (NTS-17535K), 07 Apr 2006

Lt P G Vinayagan (NTS-17540P), 07 Apr 2006

G. RAVINDRANATH
Brig
Dy DGAFMS (Pers)

ARMY BRANCH

No. 225, dated 22nd April 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Capt to Maj

Capt Vennila L K (MS-14270A), 21 Jan 2006
 Capt Vikas Singhal (MS-15309N), 02 Feb 2007
 Capt Saminathan P (MS-14466N), 06 Feb 2007
 Capt (Mrs) Praniba Sharma (MS-14546L), 13 Feb 2007
 Capt Dhage Satishkumar Rausaheb (MS-15345Y), 22 Mar 2007
 Capt Nikhil S Bhardwaj (MS-14616Y), 29 Mar 2007
 Capt Yatin Kumar Verma (MS-15305X), 21 Apr 2007
 Capt Sunil Panchal (MS-14667M), 19 May 2007
 Capt Manju Chawla (MS-14763F), 17 Aug 2007
 Capt Sunil Bhardwaj (MS-14792W), 19 Sep 2007
 Capt Parminder Kaur (MS-14793Y), 29 Sep 2007
 Capt G Premnath (MS-14794F), 29 Sep 2007
 Capt Santosh Kumar (MS-14810N), 29 Sep 2007
 Capt Gaurav Monga (MS-14834X), 06 Nov 2007
 Capt (Miss) Priyanka Arora (MS-14690A), 09 Dec 2007
 Capt Sweta Sinha (MS-14272L), 21 Jan 2006
 Capt Ravindra Chauhan (MS-15307H), 21 Oct 2006
 Capt Vijender Sangwan (MS-14642A), 04 May 2007
 Capt Patilkar Sachin Sudhakar (MS-14640P), 24 May 2007
 Capt Kapshlendra Kumar (MS-14750K), 17 Aug 2007
 Capt Bipin Kumar Rai (MS-14765M), 17 Aug 2007
 Capt Parmod Guleria (MS-14818A), 17 Aug 2007
 Capt Harsh Vivek Singh (MS-14705X), 21 Nov 2007
 Capt Pankaj Kumar Singh (MS-14674H), 28 Nov 2007
 Capt Girish Ramachandran Nair (MS-14676N), 01 Dec 2007
 Capt Rajiv Sharma (MS-14745Y), 01 Dec 2007
 Capt Varun (MS-14661Y), 04 Dec 2007
 Capt Anil Kumar (MS-14682F), 06 Dec 2007
 Capt Parmeshwar Kumar (MS-14686X), 08 Dec 2007
 Capt Anupama Dod (MS-14687A), 08 Dec 2007
 Capt Meena Maruti Ohal (MS-14694W), 09 Dec 2007
 Capt Narendra Rai (MS-14698M), 09 Dec 2007

Ft Lt to SQN LDR

Ft Lt Shiv Narayan Panda (MS-15175A) (AF-28405B), 16 Dec 2006
 Ft Lt Amol Vinayakrao Chitnis (MS-14660H) (AF-26923F), 20 Jan 2007
 Ft Lt Rahul Rai (MS-14664Y) (AF-26933K), 07 Apr 2007
 Ft Lt Md Quaisar Jawed (MS-14828K) (AF-27649F), 29 Sep 2007
 Ft Lt Subramanya U (MS-14647Y) (AF-26924H), 10 Oct 2007
 Ft Lt Anjali Lalwani (MS-14836H) (AF-27648A), 18 Nov 2007
 Ft Lt Jesy Varghese (MS-15172M) (AF-28411N), 16 Dec 2006
 Ft Lt Amrit Lal Rajan (MS-15180L) (AF-28407K), 16 Dec 2006
 Ft Lt Sanjay Kumar Srivastava (MS-15183Y) (AF-28406G), 16 Dec 2006
 Ft Lt Dharim Hatibaruah (MS-14665F) (AF-26934N), 09 Apr 2007
 Ft Lt Prasanta Dutta (MS-14631N) (AF-26936A), 24 Apr 2007
 Ft Lt Gulshan Kumar Garg (MS-14645N) (AF-26921G), 27 Dec 2003
 Ft Lt Surender Singh (MS-14632W) (AF-26943R), 30 Dec 2003
 Ft Lt Deepak Kumar (MS-14710H) (AF-27642T), 08 Dec 2004
 Ft Lt Yatender Kumar Chaudhry (MS-14948H) (AF-27664S), 05 Apr 2005

To be Ft Lt

Fg Offr Harmeet Singh Gurm (MS-14918L) (AF-27678S), 27 Dec 2005
 Fg Offr Shailendra Singh (MS-15090K) (AF-28385T), 17 Sep 2006
 Fg Offr Rahul (MS-14858F) (AF-27661G), 09 Aug 2005
 Fg Offr Amit Kumar (MS-14869N) (AF-27662K), 09 Aug 2005
 Fg Offr Manoj Goel (MS-14870H) (AF-27659K), 10 Aug 2005
 Fg Offr Ajay Kumar (MS-14863M) (AF-27663N), 11 Aug 2005
 Fg Offr Gaurav Attri (MS-14928P) (AF-27681S), 27 Dec 2005
 Fg Offr Vivek Ranjan Singh (MS-15087K) (AF-28384R), 17 Sep 2006

Fg Offr Vishy Chaudhary (MS-15091M) (AF-28386B),
17 Sep 2006

Fg Offr Aseem Sharma (MS-15094A) (AF-28387G),
17 Sep 2006

G. RAVINDRANATH
Brig
Dy DGAFMS (Pers)

ARMY BRANCH

No. 226, dated 22nd April 2008.—The President is pleased to permit the following officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :—

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Lt Col S K Gadi TA(MF-114), Railway Medical Officer,
31 Dec 2007

JAI RAJ
Under Secy

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 227, dated 23rd April 2008.—The President is pleased to make the following amendment :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

The date of Commission in respect of MS-14439K Capt Chandrashekhara T Published in the Gazette Notification on 03 Sep 2005 is Amended as Follows :

FOR : 18-01-2002

READ : 21-01-2002

G. RAVINDRANATH
Brig
Dy DGAFMS (Pers)